



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2232]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 9, 2017/श्रावण 18, 1939

No. 2232]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 9, 2017/SRAVANA 18, 1939

परमाणु ऊर्जा विभाग

(आरएंडडी-II अनुभाग)

अधिसूचना

मुंबई, 19 जुलाई, 2017

का.आ. 2540(अ).—जबकि सेवाओं या लाभों या छूट प्रदान करने हेतु पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी वितरण प्रक्रिया सरल होती है, पारदर्शिता तथा दक्षता आती है तथा यह लाभार्थियों को सुविधाजनक तथा सुगम तरीके से अपनी हकदारी को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है तथा आधार किसी की पहचान सिद्ध करने के लिए बहु दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की जरूरत को खत्म करता है;

और जबकि नीचे की तालिका में विनिर्दिष्ट सेवाओं, लाभों तथा छूट में भारत की समेकित निधि से हुए व्यय/वित्तपोषण शामिल हैं :

तालिका

क्र. सं.	सेवा का नाम	प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के उद्देश्य हेतु पात्र लाभार्थी/सर्विस इनेबलर्स
1.	राष्ट्रीय उच्चतर गणित बोर्ड की सिफारिशों पर परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) द्वारा विश्वविद्यालय/ संस्थान के माध्यम से विद्यार्थी/कर्मचारी को दी जा रही फेलोशिप/छात्रवृत्ति/वृत्तिका/ यात्रा अनुदान/अनुसंधानप्रोजेक्टका भुगतान।	इस प्रकार का भुगतान प्राप्त करने वाले विद्यार्थीगण तथा कर्मचारीगण
2.	बोर्ड की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय/संस्थान के माध्यम से विद्यार्थियों/कर्मचारियों के लिए नाभिकीय विज्ञानअनुसंधान बोर्ड को प्रदत्त अनुसंधान प्रोजेक्ट/फेलोशिप/छात्रवृत्ति/वृत्तिका/ यात्रा अनुदान	भुगतान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी तथा कर्मचारी
3.	मेजबान संस्थान के माध्यम से आरआरएफ (ट्रैक-I)/होमी भाभा चेयर को राजा रामन्ना फेलोशिप का भुगतान	आरआरएफ (ट्रैक-I)/होमी भाभा चेयर के संबंध में भुगतान प्राप्तकर्ता

4.	भुगतान एवं लेखा अधिकारी, पञ्चवि के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास-II अनुभाग द्वारा आरआरएफ (ट्रैक-II) को राजा रामन्ना फेलोशिप का भुगतान	आरआरएफ (ट्रैक-II)/होमी भाभा चेयर के संबंध में भुगतान प्राप्तकर्ता
----	--	---

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय तथा अन्य छूट, लाभ तथा सेवाओं के लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में परमाणु ऊर्जा विभाग में केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, नामतः—

1. (1) उपर्युक्त तालिका में विनिर्दिष्ट योजनाओं के तहत लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्तियों (पात्र लाभार्थी या सर्विस एनेबलर्स) के लिए आधार रखना या आधार प्रमाणीकरण कराने का प्रमाण प्रस्तुत करना एतद्वारा अपेक्षित है।
- (2) उपर्युक्त तालिका में विनिर्दिष्ट योजनाओं के तहत लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति जो अभी तक आधार के लिए पंजीकृत नहीं हुआ है, उसे आधार के लिए आवेदन करना होगा बशर्ते वह उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार आधार लेने के लिए पात्र हो तथा ऐसा व्यक्ति आधार के लिए पंजीकृत होने के लिए आधार नामांकन के किसी केंद्र (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध) में जा सकते हैं।

बशर्ते कि उस व्यक्ति को आधार मिलने तक उपर्युक्त योजनाओं के तहत लाभ निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर दिए जाएंगे। ये दस्तावेज निम्नलिखित हैं :

- (क) (i) आधार पंजीयन आईडी पर्ची यदि वह पंजीकृत हुआ/हुई है; अथवा
- (ii) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार आधार पंजीयन के लिए किया गया अनुरोध की एक प्रति तथा
- (ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक; या (ii) मतदाता पहचान-पत्र या (iii) पैन कार्ड; या (iv) पासपोर्ट या (v) ड्राइविंग लाइसेंस; या (vi) राशन कार्ड; या सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र

बशर्ते, आगे उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच पञ्चवि की संबंधित एजेंसी के अधिकारी द्वारा अपनी संबंधित योजनाओं के लिए की जाएगी।

- 2.(1) लाभों को सुविधाजनक रूप से तथा बिना जल्दीबाजी प्रदान करने के लिए पञ्चवि की संबंधित एजेंसियां सभी व्यवस्थाएं करेंगी तथा उपर्युक्त योजनाओं के तहत लाभों को प्राप्त करने के लिए सर्विस एनेबलर्स या लाभार्थियों को आधार की जरूरत के बारे में जागरूक करने हेतु नोटिस के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगी तथा यदि वे पंजीकृत नहीं हैं तो उन्हें समीप के पंजीयन केंद्रों में पंजीकृत करवाने हेतु सलाह देंगी।
3. यह अधिसूचना जम्मू तथा कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[सं. 11/1(9)/2016/कामन/आर एंड डी-II/9755]

एस. मर्विन एलेक्जेंडर, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

(R&D-II SECTION)

NOTIFICATION

Mumbai, the 19th July, 2017

S.O. 2540(E).—Whereas the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlement directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas the services, benefits and subsidies specified in the Table below involve expenditure incurred / funded from the Consolidated Fund of India:

TABLE

Sl. No.	Name of the Service	Eligible beneficiaries / Service enablers for the purpose of Direct Benefit Transfer
1.	Payment of fellowship/scholarships/stipend/travel grants/research projects being paid by the Department of Atomic Energy (DAE) on the recommendations of National Board for Higher Mathematics (NBHM) to students/employees through University/Institute	Students and employees who are recipient of such payment
2.	Research projects/fellowship/scholarships/stipend/travel grants paid to Board of Research in Nuclear Sciences (BRNS) on the recommendations of Board to students/employees through University/ Institute	Students and employees who are recipient of such payment
3.	Payment of Raja Ramanna Fellowship to RRF(Track-I) / Homi Bhabha Chair through Host Institute	Recipient of payment in respect of RRF(Track-I)/Homi Bhabha Chair
4.	Payment of Raja Ramanna Fellowship to RRF(Track-II) by Research & Development-II Section, DAE through Pay & Accounts Officer, DAE.	Recipient of payment in respect of RRF(Track-II)/Homi Bhabha Chair

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Department of Atomic Energy, hereby notified the following, namely:—

1. (1) Individuals (eligible beneficiaries or service enablers) desirous of availing benefits under the schemes specified in the Table above are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.
- (2) An individual desirous of availing benefits under the schemes specified in the above Table and is not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar in case he / she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment center (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar:—

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the said schemes shall be given to the individual, subject to the production of the following documents, namely:-

- (a) (i) Aadhaar enrolment ID slip if he or she has enrolled; or
- (ii) a copy of request made for Aadhaar enrolment as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 1; and
- (b) (i) Bank Passbook along with Photo; or (ii) Voter's ID card; or (iii) PAN card; or (iv) Passport; or (v) Driving License; or (vi) Ration card; or (vii) Photo ID card issued by the Government:

Provided further that the above said documents shall be checked by an officer of the concerned agency of the DAE, for their respective schemes.

2. (1) In order to provide convenient and hassle free delivery of benefits, the concerned agencies of the DAE shall make all the arrangements including wide publicity through notices shall be given to service enablers or beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive the benefits under the said schemes and in case they are not enrolled, they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centers.
3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all the States except the State of Jammu and Kashmir.

[No. 11/1(9)/2016/Comman/R&D-II/9755]

S. MERVIN ALEXANDER, Jt. Secy.